

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा का प्लैटिनम-लेवल ISO डेटा सर्टिफिकेशन हासिल किया

सिटी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए समर्पित सर्वोत्तम शहरों के ग्लोबल नेटवर्क में शामिल हुई

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (17 फरवरी, 2021) – आज, वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा (डबल्यू.सी.सी.डी.) (World Council on City Data) (WCCD) ने घोषणा की कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, ISO 37120 प्लैटिनम-लेवल सर्टिफिकेशन हासिल किया है। यह प्रभावी ढंग से फैसले लेने के लिए डेटा एकत्र करने, साझा करने और प्रयोग करने में उच्चतम स्टैंडर्ड है।

मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज, माननीय कैथरीन मकैना (Catherine McKenna) की ओर से, क्षेत्र के एम.पी. (MP) और सिटी काउंसिल के मेम्बरों के जुड़ने पर, डबल्यू.सी.सी.डी. (WCCD) ने, 35 देशों के उन 100 से अधिक शहरों के अपने ग्लोबल नेटवर्क (Global Network) में सिटी का स्वागत किया, जिन्होंने डबल्यू.सी.सी.डी. ISO 37120 प्लैटिनम-लेवल सर्टिफिकेशन हासिल किया है। सिटी ने कैंनेडा सरकार द्वारा समर्थित [डेटा फॉर कैंनेडियन सिटीज प्रोजेक्ट \(डी.सी.सी.पी.\) \(Data for Canadian Cities Project\) \(DCCP\)](#) के भाग के तौर पर, डबल्यू.सी.सी.डी. के ISO 37120 स्टैंडर्ड के अंदर 104 इंडिकेटर्स में से 90 से अधिक की रिपोर्ट की।

डबल्यू.सी.सी.डी. ग्लोबल नेटवर्क (WCCD Global Network) के मेम्बर के तौर पर सिटी, सेवाओं और निवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, पूरी दुनिया के अन्य डेटा-संचालित शहरों के मुकाबले, लोकल अनुभव और महत्वपूर्ण उपलब्धियां साझी करेगी। ब्रैम्पटन, अपने डबल्यू.सी.सी.डी. ग्लोबल नेटवर्क के साझेदारों के साथ, स्मार्ट, स्थिर, लचीला, खुशहाल और भागीदारी वाला समुदाय बनाना जारी रखने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सूचकों का पता लगाएगा।

वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा (डबल्यू.सी.सी.डी.) और सर्टिफिकेशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.dataforcities.org पर जाएं।

डेटा फॉर कैंनेडियन सिटीज प्रोजेक्ट के बारे में

सिटी के लीडर्स को पूरे कैंनेडा में, उच्च-योग्यता वाला, तुलनात्मक और स्वतंत्र रूप से प्रमाणित म्युनिसिपल डेटे से लैस करने वाला, [डेटा फॉर कैंनेडियन सिटीज प्रोजेक्ट \(the Data for Canadian Cities Project\)](#) एक परिवर्तनकारी, तीन-वर्षीय, पूरे कैंनेडा का प्रोजेक्ट है, जो इस समय देश की पंद्रह डेटा-संचालित म्युनिसिपल्टीज में चल रहा है। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज (Federal Ministry of Infrastructure and Communities) द्वारा समर्थित यह प्रोजेक्ट, सिटी के लीडर्स को न केवल उस तरह का डेटा प्रदान करता है, जिसकी उन्हें महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए जरूरत है, बल्कि कैंनेडा के तीस शहरों और पूरी दुनिया के एक सौ शहरों के साथ ठोक, निष्पक्ष तुलनाओं को सक्षम बनाते हुए, अंदरूनी मानदंड पैमाने को भी मज़बूत बनाता है। स्थिरता संबंधी नियोजन को मज़बूत बनाने से लेकर, आर्थिक विकास को तेज़ करने, जलवायु-बदलाव संबंधी उद्देश्यों को हासिल करने और महत्वपूर्ण निवेश फैसलों के बारे में सूचित करने तक, डेटा फॉर कैंनेडियन सिटीज प्रोजेक्ट (Data for Canadian Cities Project), पूरे देश में म्युनिसिपल

संबंधी फैसले लेने वालों को जरूरी डेटा प्रदान करता है, जिसकी उन्हें अधिक समार्ट, अधिक स्थिर, लचीले, खुशहाल और भागीदारी वाले समुदाय बनाने के लिए जरूरत है।

हवाले

“ब्रैम्पटन एक अच्छी तरह संचालित शहर है और हम भागीदारी वाला ऐसा समुदाय बना रहे हैं, जो सुरक्षित, स्थिर और सफल हो। ISO 37120 प्लैटिनम-लेवल सर्टिफिकेशन हासिल करने वाले, 100 से अधिक ग्लोबल साझेदारों वाले हमारे नेटवर्क के साथ काम करते हुए हम, हमारे लोकल अनुभव साझे करेंगे और ना केवल ब्रैम्पटन के निवासियों की, बल्कि पूरे कैंनेडा के लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक जैसे डेटा-संचालित शहरों से सीखेंगे। मुझे बहुत गर्व है कि ब्रैम्पटन को उसके उच्च स्टैंडर्ड्स के डेटे के लिए सम्मानित किया गया है। मैं समार्ट, स्थिर और सफल समुदाय बनाने के लिए अन्य, डबल्यू.सी.सी.डी. प्लैटिनम-लेवल वाले शहरों के साथ काम करने के लिए उत्साहित हूँ।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारे निवासियों के लिए प्रभावी फैसले करने के लिए डेटा जरूरी है। सहयोग और मानदंड पैमाने के साथ हम सुरक्षित, स्थिर और सफल शहर बनाने के लिए, लगातार अपने साझेदारों से सीखते हैं। प्रभावशाली डबल्यू.सी.सी.डी. ग्लोबल नेटवर्क के भाग के तौर पर, हमारे पास ब्रैम्पटन के बारे में अपनी जानकारी साझा करने के साथ-साथ, ब्रैम्पटन में और पूरे कैंनेडा के लोगों की जिंदगियों में सुधार करने के लिए, हमारे साझेदारों से सीखने का अवसर होगा।

हमें वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा द्वारा सम्मानित किए जाने पर गर्व है। हम हमारी स्थिरता में सुधार और हमारे शानदार समुदाय में आर्थिक विकास में वृद्धि करना जारी रखने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएंगे।”

- हर्कीरत सिंह (Harkirat Singh), चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज; सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, हम डेटा-संचालित फैसले लेने, प्रभावी ढंग से म्युनिसिपल संपत्तियों को संभालने और हमारे निवासियों की जिंदगियों में सुधार करने के लिए, सहयोग और हिमायत वाली साझेदारियों का लाभ उठाने के द्वारा, हमारे रोजमर्रा के कामों में लगातार सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रैम्पटन ने, हमारे ISO 37120 प्लैटिनम-लेवल सर्टिफिकेशन के द्वारा, सम्मानित ग्लोबल लीडर होना जारी रखा है, जो हमारे निवासियों के लिए अच्छी तरह संचालित शहर होने की, काउंसिल की प्रायरीटी को आगे बढ़ाता है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“बड़े और छोटे, सभी समुदायों को, आधुनिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी योजना बनाने और निर्माण करने के लिए अच्छे डेटे की जरूरत होती है। ग्लोबल डेटा स्टैंडर्ड्स को पूरा करना महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा के साथ साझेदारी में, डेटा फॉर कैंनेडियन सिटीज प्रोजेक्ट के द्वारा, हम ऐसा करने के लिए पूरे कैंनेडा के कई समुदायों में म्युनिसिपल लीडर्स की मदद कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि ब्रैम्पटन ने म्युनिसिपल डेटे के लिए ISO स्टैंडर्ड्स हासिल किया है। यह गुणवत्ता डेटे वाले प्रोजेक्टों की योजना बनाने में सिटी की मदद करेगा और प्रमाण-आधारित फैसलों में मार्गदर्शन करने में भी मदद करेगा। कैंनेडा का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, हज़ारों प्रोजेक्टों में निवेश करता है, पूरे देश में नौकरियां पैदा करता है और अधिक मज़बूत समुदाय बनाता है।”

- माननीय कैथरीन मकैना (Catherine McKenna), मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज

"वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा की ओर से मुझे, डबल्यू.सी.सी.डी. का ISO 37120 प्लैटिनम-लेवल सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को बधाई देते हुए खुशी हो रही है। यह उपलब्धि आपके शानदार स्टाफ के समर्पण की मिसाल है और प्रमाण-आधारित फैसलों के लिए काउंसिल की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। संशोधित सेवा डिलीवरी से लेकर आर्थिक विकास, नियोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के ऐप्लिकेशंस के साथ, सिटी का ISO-प्रमाणित डेटा, विकास के लिए ब्रैम्पटन की क्षमताएं और अवसर दर्शाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज और मिनिस्टर मकैना के साथ हमारे साझेदारी के द्वारा, हम इस वर्ष के बाकी बचे हुए समय में और इसके बाद, डेटा फॉर कैनेडियन सिटीज प्रोजेक्ट पर सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हैं।"

- डा. पैट्रिशिया मैकारने (Patricia McCarney), प्रेजिडेंट और सी.ई.ओ., डबल्यू.सी.सी.डी.

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

गुरविंदर सिंह (Gurvinder Singh)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca